

योग अभियान से जुड़ा आईआईएफएल

नई दिल्ली। योग के फायदे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आईआईएफएल फाईनेंस ने आईआईएफएल फाउंडेशन के साथ सेहतमंद शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग की थीम के तहत पूरे देश के 700 से अधिक शहरों में 1144 योग शिविरों का आयोजन किया। इस बारे में सुमित बाली ने कहा कि ये शिविर इसके सीएसआर अभियान आईआईएफएल मिलन के तहत आयोजित किए गए और इनमें 27,820 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल थे। इन लोगों ने योग से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में विशेषज्ञों से जाना।